
MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works : 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA
E-mail : msladmin@munjalshowa.net Website : www.munjalshowa.net
Corporate Identity Number : L34101HR1985PLC020934, PAN : AAACM0070D
Phone : 0124-4783000

February 11, 2023

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-
Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2022 under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. "Mint" in English language on February 11, 2023 and "Hindustan" in Hindi Language on February 11, 2023 for Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2022.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For MUNJAL SHOWA LIMITED

(Neha Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

खोज

देश में पहली बार इंग्लैंड की लीथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआर) ने जम्मू-कश्मीर स्थित रियासी में 59 लाख टन लीथियम का पता लगाया है। भारत तीन-हामकांग से ही 72.73% बैटरी का उत्पादन करता है। रियासी में मिला लीथियम भंडार चीन पर निर्भरता घटाने में मददगार साबित होगा।




71 करोड़ अक्षर लीथियम का भंडार है। 14 करोड़ अक्षर लीथियम का भंडार है।

जम्मू-कश्मीर में मिला लीथियम भंडार चीन पर निर्भरता घटाएगा

11 राज्यों में खनिज की तलाश। लीथियम का महत्व समझें। दुनिया के पास सर्वाधिक भंडार। विश्व में तेजी से बढ़ते हुए मांग।

लीथियम का महत्व समझें। दुनिया के पास सर्वाधिक भंडार। विश्व में तेजी से बढ़ते हुए मांग।



दुनिया के पास सर्वाधिक भंडार। विश्व में तेजी से बढ़ते हुए मांग।

दल 30

'20 मार्च से दिल्ली में किसान आंदोलन'। प्रतिकार की हत्या पर रिपोर्ट तलब की।

पिछले वर्ष हुई परेशानी को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे।

गर्मियों में नहीं आएगी बिजली कटौती की नौबत

एहतियात



नई दिल्ली, विद्युत विभाग। एक बार फिर नई दिल्ली में बिजली का कटौती की नौबत नहीं आएगी।

विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि देश में बिजली की आपूर्ति पर कोई भी खतरा नहीं है।

बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका खारिज।

खनिज के लिए चीन का चाल

चीन की खनिज की तलाश। लीथियम का महत्व समझें। दुनिया के पास सर्वाधिक भंडार। विश्व में तेजी से बढ़ते हुए मांग।

बाँकेविहारी मामले में तेज हो सुनवाई।

नई दिल्ली, न्यायाधीश। बाँकेविहारी मामले में सुनवाई तेज हो गई है।

इन्फार्मो माओवादी ने आत्मसमर्पण किया।

नई दिल्ली, माओवादी। इन्फार्मो माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है।

'कोलेजियम को पुनर्विचार बहिष्कार की प्रथा का मुद्दा बड़ी बेंच को भेजा के लिए नहीं कह सकते'

नई दिल्ली, विद्युत विभाग। एक बार फिर नई दिल्ली में बिजली का कटौती की नौबत नहीं आएगी।

विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि देश में बिजली की आपूर्ति पर कोई भी खतरा नहीं है।

नई दिल्ली, न्यायाधीश। बाँकेविहारी मामले में सुनवाई तेज हो गई है।

निलंबित जज की याचिका पर सुनवाई से हटे न्यायमूर्ति

नई दिल्ली, न्यायाधीश। बाँकेविहारी मामले में सुनवाई तेज हो गई है।

विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि देश में बिजली की आपूर्ति पर कोई भी खतरा नहीं है।

नई दिल्ली, न्यायाधीश। बाँकेविहारी मामले में सुनवाई तेज हो गई है।

देरी से रवाना विमान दिल्ली लौटा, बाद में उड़ान रद्द

नई दिल्ली, एरलाईन। दिल्ली से देरी से रवाना विमान दिल्ली लौटा, बाद में उड़ान रद्द।

विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि देश में बिजली की आपूर्ति पर कोई भी खतरा नहीं है।

नई दिल्ली, न्यायाधीश। बाँकेविहारी मामले में सुनवाई तेज हो गई है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (गृह मंत्रालय) भारत सरकार

Table with recruitment details for India-Tibet Border Police Force. Columns include Post Name, No. of Posts, and Application Dates.

टीएफपी: (I) वैकल्पिक रिक्तिवले सहित कुल रिक्तिवले में पूर्व सुचना दिए बिना परीक्षण हो सकता है। (II) मेडिकल ऑफिसर (सहायक कम्पाउंड) के रैंक में 10 प्रतिशत रिक्तिवले पूर्व-मैरिज्ड हेतु आवेदन है।

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34401HR1800PLC020834
Registered Office & Works: Plot No. 9-11, Maruti Industrial Area
Sector 18, Gurugram-120015 (Haryana), Tel: +91-1244-103000
Email: info@munjalshowa.net | Website: www.munjalshowa.net

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2022

(In Lakhs, except per equity share data)

S. No.	Particulars	3 Months Ended 31.12.2022	Year to Date 31.12.2022	3 Months Ended 31.12.2021
1.	Total Income from operations	30,762.83	94,105.42	26,586.97
2.	Net Profit for the period before tax and exceptional items	594.31	2,154.21	110.81
3.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	486.83	1,415.84	118.81
4.	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	313.60	1,070.50	96.90
5.	Equity Share Capital	343.49	1,167.78	36.90
6.	Reserve including revaluation reserve as on March 31, 2022	756.91	789.93	793.83
7.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (in Rs. 2/- each)	2.00	2.00	2.80
	Basic: (in rupees)	0.79	2.88	0.24
	Diluted: (in rupees)	0.79	2.88	0.24

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.sebiindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.munjalshowa.net.

For and on behalf of the Board
Sd/-
[Rajesh Chander Munjal]
Chairman & Managing Director
DIN: 6093491

Place: Gurugram
Date: February 10, 2023

CENTRAL RAILWAY NAGPUR DIVISION

E-TENDER NOTICE NO. NCR/CTE/ELCT-2023-23/05

Date: 08/02/2023

E-Tender Tender to be invited for: Replacement of existing Nagpur Power Transformer (i.e. A & B) 220 KV/ 50 MVA at Vaswanand Nagar, 2 nos. 220KV/50 MVA at Nagpur, 2 nos. 220KV/50 MVA at Karamnash 1, 1 nos. 220KV/ 50 MVA at Pandhurna, 1 nos. 220KV/ 50 MVA at TDS and 2 Nos. 220KV/ 50 MVA at TDS and 2 Nos. 220KV/ 50 MVA, along with associated equipment and installation to leading load to cater additional load (up to 200.5 MVA) of C.Railway Nagpur" Division Estimated Cost of the Work: ₹ 19,85,498/- Cost of Tender Form: ₹ 440 (Rs. Earnest Money Deposit) ₹ 250,000/- Completion Period: 18 Months. Closing of Tender: On 07/02/2023, 10:00 Hrs. Date and Time of Opening of Tender: On 07/02/2023, 15:30 Hrs. For details of Tender Notice visit www.krsn.gov.in

By Chief Electrical Engineer (Construction), Nagpur
Railhead Nagpur (13) 200

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE ADOL. CHIEF ENGINEER (M)-18
TECHNICAL DIVISION (M)-18
ROOM NO. 101, 10/15, CHANDNI BHANSA
NEAR WEST CHINA ENGINEERING COLLEGE, NEW DELHI-110028
MOBILE: 9891012000, FAX: 26109101

Short No. 103/ACC/30/15/UE/CI/M-100202-23

PROPOSAL TENDER

S. No.	Name of work	Estimate Value (₹)	Estimate Cost (₹)	Date of release of tender as a procurement system	Last Date and time for receipt of tender through e-procurement system
1.	Replacement of existing 220KV/50 MVA transformer at Vaswanand Nagar, 2 nos. 220KV/50 MVA at Nagpur, 2 nos. 220KV/50 MVA at Karamnash 1, 1 nos. 220KV/ 50 MVA at Pandhurna, 1 nos. 220KV/ 50 MVA at TDS and 2 Nos. 220KV/ 50 MVA at TDS and 2 Nos. 220KV/ 50 MVA, along with associated equipment and installation to leading load to cater additional load (up to 200.5 MVA) of C.Railway Nagpur" Division Estimated Cost of the Work: ₹ 19,85,498/- Cost of Tender Form: ₹ 440 (Rs. Earnest Money Deposit) ₹ 250,000/- Completion Period: 18 Months. Closing of Tender: On 07/02/2023, 10:00 Hrs. Date and Time of Opening of Tender: On 07/02/2023, 15:30 Hrs. For details of Tender Notice visit www.krsn.gov.in	19,85,498/-	19,85,498/-	07/02/2023 at 10:00 hrs.	07/02/2023 at 15:30 hrs.

For further details in this regard, you can visit at www.jalboard.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.D. (MATER)
Advt. No. J.S.V. 4802022-23

By: Chief Electrical Engineer (Construction), Nagpur
Railhead Nagpur (13) 200

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE ADOL. CHIEF ENGINEER (M)-18
TECHNICAL DIVISION (M)-18
ROOM NO. 101, 10/15, CHANDNI BHANSA
NEAR WEST CHINA ENGINEERING COLLEGE, NEW DELHI-110028
MOBILE: 9891012000, FAX: 26109101

Short No. 103/ACC/30/15/UE/CI/M-100202-23

PROPOSAL TENDER

S. No.	Name of work	Estimate Value (₹)	Estimate Cost (₹)	Date of release of tender as a procurement system	Last Date and time for receipt of tender through e-procurement system
1.	Making local area connection of individual houses with the main sewer connection pipe in Malviya GIC	17,77,20,000/-	17,77,20,000/-	07/02/2023 at 10:00 hrs.	07/02/2023 at 15:30 hrs.

For further details in this regard, you can visit at www.jalboard.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.D. (MATER)
Advt. No. J.S.V. 4802022-23

By: Chief Electrical Engineer (Construction), Nagpur
Railhead Nagpur (13) 200

DELHI JAL BOARD, GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE ADOL. CHIEF ENGINEER (M)-18
TECHNICAL DIVISION (M)-18
ROOM NO. 101, 10/15, CHANDNI BHANSA
NEAR WEST CHINA ENGINEERING COLLEGE, NEW DELHI-110028
MOBILE: 9891012000, FAX: 26109101

Short No. 103/ACC/30/15/UE/CI/M-100202-23

PROPOSAL TENDER

S. No.	Description of work	Tender Fee (₹)	Date of release of tender as a procurement system	Last Date and time for receipt of tender through e-procurement system
1.	Agreement-to-quitance of 579 P&L items under Package-1 (the project) under ID: 2022-23/23/23/23	₹ 20,000/-	07/02/2023	07/02/2023 at 15:30 PM

For further details in this regard, you can visit at www.jalboard.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.D. (MATER)
Advt. No. J.S.V. 4802022-23

By: Chief Electrical Engineer (Construction), Nagpur
Railhead Nagpur (13) 200

STL GLOBAL LIMITED

CIN: L31900DL1977PLC08907

Regd. Office: Unit No. 11, Block No. 1, First Floor,
Tishoo Complex, Saket, New Delhi-110017
Website: www.stl-global.com, Tel: 26030303, e-mail: investor@stl-global.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2022

(In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2022	Year to Date 31.12.2022	Quarter ended in the previous year (31.12.2021)
Total Income from operations (net)	2,662.58	8,036.46	3,375.23
Total Expenses	(2,641.06)	(8,023.42)	(3,379.41)
Net Profit (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	(78.09)	(17.32)	96.46
Net Profit (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(78.09)	(17.32)	96.46
Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(52.20)	(14.89)	96.96
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(52.20)	(14.89)	96.75
Equity Share Capital (Face Value: ₹. 10/- each)	2,722.16	2,722.16	2,722.16
Reserves (excluding Provisional Reserve shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)	(0.22)	(0.06)	0.36
Basic:	(0.22)	(0.06)	0.36
Diluted:	(0.22)	(0.06)	0.36

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022, filed with the Stock Exchange in Form 23-B under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022, are available on the company's website at www.stlglobal.com and on the Stock Exchange websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.
2. The Company business is a single business segment in terms of the Indian Accounting Standard. Operating segment basis no additional disclosures have been furnished.
3. There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nine months ended 31st December, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors of STL Global Limited
Sd/-
Sri. Sanjay Kumar Aggarwal
Whole Time Director
DIN: 00727181

Place: Faridabad
Date: 10th February 2023

Jubilant Ingrevia Limited

(CIN: L24299UP2019PLC120567)
Registered Office: Bharti Nagar, Gurgaon,
Gurgaon, Haryana-124 003, Uttar Pradesh, India
E-mail: investors@ingrevia.com | Website: www.jubilantingrevia.com
Phone: +91-5924-307200

COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS ON DEDUCTION OF TAX AT SOURCE ON DIVIDEND

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on January 31, 2023, have declared an interim dividend of INR 2.50 per equity share. The interim dividend will be paid to those members whose name appear on the Register of Member or in record of the Depositories as beneficial owners of the shares as on the record date, i.e. February 10, 2023. The interim dividend will be paid (after deduction of tax at source, as applicable, in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 [the IT Act]) and further read with Double Taxation Avoidance Agreement between India and the country of tax residence of a non-resident shareholder, wherever applicable) within 30 days from the date of the Board Meeting, electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrant/demand draft/cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank account details with their depositories (where shares are held in Demat mode) and update with Company's Registrar and Transfer Agent, Anand Associates Limited (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with full no., self addressed cancelled cheques and a copy of Permanent Account No. (PAN) to receive the dividend directly into their bank account. Shareholders may note that pursuant to the provisions of the IT Act, dividend paid or distributed by a company shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit the relevant documents as specified herein below, in accordance with the provisions of the IT Act.

KINDLY NOTE THAT FINAL DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR (FY) 2022-23, WHICH WAS DECLARED IN THE MONTH OF SEPTEMBER 2022 WILL ALSO BE CONSIDERED FOR DETERMINING THRESHOLD EXEMPTION LIMIT OF ₹. 5,000 IN THE CASE OF RESIDENT INDIVIDUAL SHAREHOLDERS, IN THE EVENT OF NON-DEDUCTION/SHORT DEDUCTION OF TDS FROM DIVIDEND PAID EARLIER, THE ELIGIBLE TDS WOULD BE DEDUCTED FROM THE CURRENT INTERIM DIVIDEND.

For Resident Shareholders, taxes shall be deducted at source under Section 194 of the IT Act, as follows:

Shareholders having valid Permanent Account Number (PAN)	10%
Shareholders not having PAN or not having valid PAN	20%
Shareholder qualifying as a 'specified person' under section 206AB of the IT Act	20%

However, no tax shall be deducted on the dividend paid in the following cases:

- Where aggregate dividend paid to a resident individual shareholder during the Financial Year 2022-23 does not exceed ₹. 5,000.
- Where resident individual shareholders provide Form 15G/Form 15H (Form 15H is applicable for resident individual shareholders aged 60 years or more) to the Company subject to conditions specified in the IT Act.

Resident shareholders may also submit any other document as prescribed under the IT Act to claim deduction of tax at a lower rate. PAN is mandatory for shareholders providing Form 15G/15H or any other document as mentioned above to the Company.

For Non-resident Shareholders, taxes are required to be withheld in accordance with the provisions of Section 195 of the IT Act and other applicable sections of the IT Act, as the rates in force. The taxes shall be withheld at a rate of 20% (plus applicable surcharge and cess) on dividends paid to non-resident shareholders under the provisions of the IT Act. However, as per Section 90 of the IT Act, non-resident shareholders have an option to be governed by the provisions of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) read with Multilateral Instrument (MLI) between India and the country of tax residence of the non-resident shareholder, if these provisions are more beneficial to such non-resident shareholders. For this purpose, i.e. to avail the benefits under the DTAA read with MLI, non-resident shareholders will have to provide the following documents/details:

- Copy of PAN card (if available)
- Copy of Tax Residency Certificate (TRC) issued by the revenue authority of the country of tax residence of the non-resident shareholder for the calendar year 2022 and calendar year 2023 or financial year 2022-2023, as the case may be, covering the period from April 1, 2022 to March 31, 2023.
- Self-declaration in Form 10F pertaining to Financial Year 2022-23.
- Self-declaration with respect to non-existence of permanent establishment / fixed base / business connection in India, place of effective management, beneficial ownership and eligibility to avail DTAA benefits pertaining to Financial Year 2022-23.
- Any other document as prescribed under the IT Act for lower withholding of taxes.
- Any other document as prescribed under the IT Act for lower withholding of taxes, if applicable, duly attested by the shareholder.

In case of Foreign Institutional Investors / Foreign Portfolio Investors, taxes will be withheld under Section 196D of the IT Act @ 20% (plus applicable surcharge and cess) or at the beneficial tax rate provided in the DTAA between India and country of tax residence of the shareholder, whichever is lower.

The shareholders entitled to any tax benefit under the provisions of the IT Act or DTAA, as applicable, may send their tax documents/details to the Company at investors@ingrevia.com which must reach the Company on or before February 17, 2023. The said documents / details shall be subject to the verification / satisfaction of the Company and no communication shall be accepted in this regard after February 17, 2023. The details have been placed on the web-link <http://www.jubilantingrevia.com/investors/informationalupdates>.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company.

For Jubilant Ingrevia Limited
Sd/-
Deepanshi Gulati
(Company Secretary)

Date: February 10, 2023
Place: Noida

INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LIMITED

Regd. Office: "INDSIL HOUSE" 102-101, TV Sany Road (West), R.S. Puram, Coimbatore 641 002, Ph. No. 942-402832 Fax No. 942-402820, Email: info@indsil.com | Web: www.indsil.com CIN: L27912TN1999PLC03048

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2022

(In Lakhs except EPS data)

S. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year to Date 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year to Date 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations (net)	4,238.10	3,234.93	5,860.07	11,913.59	16,999.44	22,049.97
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, Exceptional and / or Extraordinary Items	309.65	(716.81)	889.98	(148.80)	1,661.78	2,532.19
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	309.65	(716.81)	889.98	(148.80)	1,661.78	2,532.19
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	300.88	(863.85)	1,579.28	(501.67)	2,360.77	3,262.58
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	301.87	(863.85)	1,582.54	(499.69)	2,400.38	3,175.33
6.	Equity Share Capital	2,779.11	2,779.11	2,779.11	2,779.11	2,779.11	2,779.11
7.	Reserve (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings per equity share (face value of ₹. 10/- each)	1.08	(3.18)	5.68	(1.81)	8.61	11.74
	Basic: (in Rs.)	1.08	(3.18)	5.68	(1.81)	8.61	11.74
	Diluted: (in Rs.)	-	-	-	-	-	-

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine Months ended Unaudited Financial Results are available on the BSE/NSE Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.indsil.com).
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th February, 2023 and limited review of the same is carried out by the Statutory Auditors of the Company.
3. The figures for the previous periods have been re-grouped / re-arranged wherever necessary to make them comparable with Note of current period.

For INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LIMITED
Sd/-
K. RAMANJANESWARAN
Whole Time Director
DIN: 92719442

Place: Coimbatore
Date: 10.02.2023